

[Total No. of Questions : 06]

Paper Code : DMLT104

Annual Examination – 2024 DMLT (First Year)

Biochemistry

[Time : Three Hours]

[Maximum Marks 100]

Note : Attempt any **five** questions. All questions carry equal marks.

किन्हि पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- 1 – Explain the structure of t-RNA. 20
टी-आरएनए की संरचना की व्याख्या करें।
- 2 – What is Nucleoside? 20
न्यूक्लियोसाइड क्या है?
- 3 – What is the function of Carbohydrate? 20
कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है?
- 4 – Biochemical findings in primary and secondary Hypothyroidism. 20
प्राथमिक और माध्यमिक हाइपोथायरायडिज्म में जैव रासायनिक निष्कर्ष।
- 5 – Describe the regulation of blood glucose. 20
रक्त शर्करा के नियमन विस्तार से लिखें।
- 6 – Explain Principle of electrophoresis and its uses. 20
वैद्युतकणसंचलन का सिद्धांत और इसके उपयोग।